



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं. 301]

No. 301]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 3, 2002/आषाढ़ 12, 1924

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 3, 2002/ASADHA 12, 1924

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2002

सं. 37/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 468(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क (विशेष महत्व का माल) अधिनियम, 1957 (1957 का 58) की धारा 3 की उपधारा (3) के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अधिसूचना सं० 14/2002- केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 और 15/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002 (सा०का०नि० 135(अ) तारीख 1 मार्च, 2002 और 136(अ), तारीख 1 मार्च, 2002), जो दोनों भारत के राजपत्र, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i) तारीख 1 मार्च, 2002 में प्रकाशित की गई थीं, जारी की हैं ;

और केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिसूचनाओं में से प्रत्येक में उक्त अधिसूचनाओं का क्षेत्र और लागू होना स्पष्ट करने के प्रयोजन के लिए स्पष्टीकरण अन्तः स्थापित करने के लिए ऐसा करना आवश्यक और समीचीन समझती है,

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 5क की उपधारा (2क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निदेशित करती है कि इससे उपाखण्ड सारणी के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की उक्त अधिसूचनाओं में से प्रत्येक को उक्त सारणी के स्तम्भ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट रीति से और संशोधित किया जाएगा, अर्थात् :-

सारणी

क्र.सं.	अधिसूचना सं. और तारीख	संशोधन
(1)	(2)	(3)
1.	14/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002	<p>उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण VI के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-</p> <p>‘स्पष्टीकरण VII, - इस अधिसूचना में, -</p> <p>(1) शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि स्पष्टीकरण 1 में और सारणी के नीचे विनिर्दिष्ट शर्त सं0 1 और 2 में, “टैक्सटाइल यार्न,” अभिव्यक्ति से यह आशयित है कि उसमें टैक्सटाइल फाइबर भी अन्तर्विष्ट है,</p> <p>(2) सारणी में, क्रम सं0 3, 4, 6, 7, 8, 13 और 16 में से किसी के सामने विनिर्दिष्ट प्रसंस्कृत टैक्सटाइल फैब्रिक को, जो संयुक्त मिल द्वारा (अर्थात् कोई ऐसा विनिर्माता जो उसी कारखाने के भीतर फाइबर से सूत की कटाई के साथ फैब्रिक के प्रसंस्करण में और फैब्रिक के व्यूतन या बुनाई या कशीदाकारी में लगा हुआ है) या किसी विनिर्माता द्वारा जो उसी कारखाने के भीतर फैब्रिक के व्यूतन या बुनाई या कशीदाकारी के साथ फैब्रिक के प्रसंस्करण में लगा हुआ है, विनिर्मित है, छूट देने के प्रयोजनों के लिए, उक्त संबंधित क्रम संख्याओं में से प्रत्येक के सामने स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट शर्त के बारे में यह आशयित है कि उसका समाधान हो चुका है यदि उक्त प्रसंस्कृत फैब्रिकों को, यथास्थिति, ऐसे टैक्सटाइल फाइबर या सूत से विनिर्मित किया जाता है, जिस पर यथास्थिति तत्समय प्रवृत्त किसी अधिसूचना के साथ प्रति केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली या दूसरी अनुसूची के अधीन उद्ग्रहणीय समुचित उत्पाद-शुल्क का या सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा (3) के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त सीमाशुल्क का संदाय कर दिया गया है ;</p> <p>(2) सारणी में, क्रम सं0 3, 4, 6, 7, 8, 13 और 16 में से किसी के सामने</p>

		(3) यह स्पष्टीकरण ऐसे प्रभावी होगा मानो यह सदैव से ही इस अधिसूचना का भाग रहा हो.”;
2.	15/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002	<p>उक्त अधिसूचना में, स्पष्टीकरण III के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-</p> <p>‘स्पष्टीकरण IV - इस अधिसूचना में, -</p> <p>(1) शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि स्पष्टीकरण 1 में और सारणी के नीचे विनिर्दिष्ट शर्तों सं० 1 या 2 में, “ टैक्सटाइल यार्न ” अभिव्यक्ति से यह आशयित है कि उसमें टैक्सटाइल फाइबर भी अन्तर्विष्ट है,</p> <p>(2) सारणी में, क्रम सं० 3, 6, 9, 10 और 13 में से किसी के सामने विनिर्दिष्ट प्रसंस्कृत विनिर्दिष्ट प्रसंस्कृत टैक्सटाइल फैब्रिक को, जो संयुक्त मिल द्वारा (अर्थात् कोई ऐसा विनिर्माता जो उसी कारखाने के भीतर फाइबर से सूत की कटाई के साथ फैब्रिक के प्रसंस्करण में और फैब्रिक के व्यूतन या बुनाई या कशीदाकारी में लगा हुआ है) या किसी विनिर्माता द्वारा जो उसी कारखाने के भीतर फैब्रिक के व्यूतन या बुनाई या कशीदाकारी के साथ फैब्रिक के प्रसंस्करण में लगा हुआ है, विनिर्मित है, छूट देने के प्रयोजनों के लिए, उक्त संबंधित क्रम संख्याओं में से प्रत्येक के सामने स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट शर्त के बारे में यह आशयित है कि उसका समाधान हो चुका है यदि उक्त प्रसंस्कृत फैब्रिकों को, यथास्थिति, ऐसे टैक्सटाइल फाइबर या सूत से विनिर्मित किया जाता है, जिस पर यथास्थिति तत्समय प्रवृत्त किसी अधिसूचना के साथ पठित केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली या दूसरी अनुसूची के अधीन उद्ग्रहणीय समुचित उत्पाद-शुल्क का या सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा (3) के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त सीमाशुल्क का संदाय कर दिया गया है ;</p> <p>(3) सारणी में, क्रम सं० 17 के सामने स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट ऐसे माल को, जो ऐसे विनिर्माता द्वारा, जो एक ही कारखाने के भीतर फैब्रिक के प्रसंस्करण के साथ उक्त माल के उत्पादन और फैब्रिक के व्यूतन या बुनाई या कशीदाकारी में लगा हुआ</p>

	<p>हे विनिर्मित किया गया है, छूट देने के प्रयोजनों के लिए, उक्त क्रम संख्या के सामने स्तम्भ (5) में विनिर्दिष्ट शर्त के बारे में यह आशयित है कि उसका समाधान हो चुका है, यदि उक्त माल का ऐसे टैक्सटॉइल ग्रान से विनिर्माण किया गया है, जिस पर यथास्थिति, तत्समय प्रवृत्त किसी अधिसूचना के साथ पठित उक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली या दूसरी अनुसूची के अधीन उद्ग्रहणीय समुचित उत्पाद-शुल्क का या सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 3 के अधीन उद्ग्रहणीय अतिरिक्त सीमाशुल्क का संदाय कर दिया गया है ;</p> <p>(4) यह स्पष्टीकरण ऐसे प्रभावी होगा मानो यह सदैव से ही इस अधिसूचना का भाग रहा हो,”;</p>
--	---

[फा. सं. 357/11/2002-टीआरयू]

जी.डी. लोहानी, अवर सचिव

टिप्पण :—

- (1) मूल अधिसूचना सं. 14/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002, भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 135(अ), तारीख 1 मार्च, 2002, द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसका अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 26/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क [सा.का.नि. सं. 305(अ) तारीख 27 अप्रैल, 2002] द्वारा प्रकाशित किया गया था।
- (2) मूल अधिसूचना सं. 15/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002, भारत के राजपत्र में सा.का.नि. सं. 136(अ), तारीख 1 मार्च, 2002, द्वारा प्रकाशित की गई थी और उसका अंतिम बार संशोधन अधिसूचना सं. 26/2002-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क [सा.का.नि. सं. 305(अ) तारीख 27 अप्रैल, 2002] द्वारा प्रकाशित किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd July, 2002

No. 37/2002-Central Excise

G.S.R. 468(E).— WHEREAS the Central Government in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944) read with sub-section (3) of section 3 of the Additional Duties of Excise (Goods of Special Importance) Act, 1957 (58 of 1957), has issued notification Nos. 14/2002-Central Excise, dated the 1st March, 2002 and 15/2002-Central Excise, dated the 1st March, 2002 [G.S.R. 135 (E), dated the 1st March, 2002 and 136 (E), dated the 1st March, 2002] both published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 1st March, 2002;

AND WHEREAS the Central Government considers it necessary and expedient so to do for the purpose of clarifying the scope and applicability of the said notifications to insert explanation in each of the said notifications;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2A) of section 5A of the said Central Excise Act, the Central Government, hereby directs that each of the said notifications of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), specified in column (2) of the Table hereto annexed, shall be further amended, in the manner specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

TABLE

S.No.	Notification No. and date	Amendment
(1)	(2)	(3)
1.	14/2002-Central Excise, dated the 1st March, 2002	<p>In the said notification, after <i>Explanation VI</i>, the following shall be inserted, namely:-</p> <p><i>'Explanation VII.- In this notification,-</i></p> <p>(1) for the removal of doubt, it is hereby clarified that in <i>Explanation II</i> and in condition Nos. 1 and 2 specified below the Table, the expression "textile yarns" is intended to include therein "textile fibres" also;</p> <p>(2) for the purposes of the exemption to processed textile fabrics, specified in the Table against any of the S.Nos. 3, 4, 6, 7, 8, 13 and 16, manufactured by a composite mill (i.e., a manufacturer engaged in processing of fabrics along with the spinning of yarn from fibres and weaving or knitting or crocheting of fabrics within the same factory), or by a manufacturer engaged in processing of fabrics along with weaving or knitting or crocheting of fabrics within the same factory, the condition specified in column (5) against each of the said respective S.Nos. is intended to have been satisfied if the said processed fabrics are manufactured from textile fibres or yarns, as the case may be, on which the appropriate duty of excise leviable under the First or the Second Schedule to the said Central Excise Tariff Act read with any notification for the time being in force or the additional duty of customs leviable under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975, as the case may be, has been paid;</p> <p>(3) this Explanation shall have effect as if it had always been the part of this notification.'</p>
2.	15/2002-Central Excise, dated the 1st March, 2002	<p>In the said notification, after <i>Explanation III</i>, the following shall be inserted, namely:-</p> <p><i>'Explanation IV.- In this notification,-</i></p> <p>(1) for the removal of doubt, it is hereby clarified that in <i>Explanation I</i> and in condition Nos. 1 and 2 specified below the Table, the expression "textile yarns" is intended to include therein "textile fibres" also;</p> <p>(2) for the purposes of the exemption to processed textile fabrics, specified in the Table against any of the S.Nos. 3, 6, 9, 10 and 13, manufactured by a composite mill (i.e., a manufacturer engaged in processing of fabrics along with the spinning of yarn from fibres and weaving or knitting or crocheting of fabrics within the same factory), or by a manufacturer engaged in processing of fabrics along with weaving or knitting or crocheting of fabrics within the same factory, the condition specified in column (5) against each of the said respective S.Nos. is intended to have been satisfied if the said processed fabrics are manufactured from textile fibres or</p>

		<p>yarns, as the case may be, on which the appropriate duty of excise leviable under the First or the Second Schedule to the said Central Excise Tariff Act read with any notification for the time being in force or the additional duty of customs leviable under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975, as the case may be, has been paid;</p> <p>(3) for the purposes of the exemption to goods specified in the Table, in column (3) against S.No. 17, manufactured by a manufacturer engaged in the production of the said goods alongwith processing of fabrics and weaving or knitting or crocheting of fabrics within the same factory, the condition specified in column (5) against the said S.No. is intended to be satisfied if the said goods are manufactured from textile yarns, on which the appropriate duty of excise leviable under the First or the Second Schedule to the said Central Excise Tariff Act read with any notification for the time being in force or the additional duty of customs leviable under section 3 of the Customs Tariff Act, 1975, as the case may be, has been paid;</p> <p>(4) this Explanation shall have effect as if it had always been the part of this notification.</p>
--	--	--

[F.No. 357/11/2002-TRU]

G.D. LOHANI, Under Secy.

Note :—

(1) The principal notification No. 14/2002-Central Excise, dated the 1st March, 2002 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 135 (E), dated the 1st March, 2002 and was last amended by notification No. 26/2002-Central Excise, dated the 27th April, 2002 [G.S.R. 305 (E), dated the 27th April, 2002].

(2) The principal notification No. 15/2002-Central Excise, dated the 1st March, 2002 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 136 (E), dated the 1st March, 2002 and was last amended by notification No. 26/2002-Central Excise, dated the 27th April, 2002 [G.S.R. 305 (E), dated the 27th April, 2002].